



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 241) पटना, सोमवार, 4 जून 2012

अधीक्षक का कार्यालय

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं0 7723—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक्स आर्मी मैन से कार्य कराने के लिए डी0जी0आर0, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी जो इस कार्य हेतु श्रम विभाग, बिहार सरकार से निबंधित है से निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों अंदर सिर्फ निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा की सारी जानकारियां बिहार सरकार के बेबसाईट www.prdfbihar.gov.in के अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के बेबसाईट www.pmch.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रकाशन के पश्चात किसी भी कार्य दिवस को अधीक्षक कार्यालय से निविदा के शर्त एवं सूची प्राप्त की जा सकती है।

पटना

दिनांक 2 जून 2012

(ह0) अस्पष्ट,

अधीक्षक।

प्रकाशित निविदा की शर्तें

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिर्फ डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित एजेंसी द्वारा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिर्फ एक्स आर्मी मैन द्वारा ही सुरक्षा कार्य करना होगा। एक्स आर्मी मैन की संख्या 76 होगी। उसी संख्या में से आवश्यकता अनुसार सुपरवाइजर रखना होगा। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संख्या बढ़ने पर चयनित एजेंसी को सुरक्षा कर्मों की संख्या मुहैया करानी होगी।

निविदा दो प्रकार की होगी :—(1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा।

निविदा कम्प्यूटर से टंकित दो प्रतियों में सील बन्द लिफाफा में मूल प्रति एवं दोहरी प्रतियों में देना होगा। हस्तलिखित, कंटिंग, ओभर राईटिंग निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पद नाम से सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा प्रकाशन के तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(1) डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी को गृह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में निबंधन होना चाहिए। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कार्य हेतु निबंधन श्रम विभाग, बिहार पटना में होना चाहिए।

(2) प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी को एवं डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी को आवासीय प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(3) निविदादाता को सेंट्रल एक्साईज, पटना में निबंधित होना चाहिए।

(4) डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी को पैन कार्ड का अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा एवं ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में निबंधन होने चाहिए।

(5) डी0जी0आर0 में निबंधित एजेंसी एवं प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी को 1,00,000=00 (एक लाख) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना के नाम से अग्रधन की राशि तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(6) दोनों प्रकार के एजेंसी को एक साल का ऑडिट बैलेस सीट संलग्न करना होगा।

(7) एक्स आर्मी मैन मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही 50 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए।

(8) एक्स आर्मी मैन (सुरक्षा प्रहरी) का वर्दी एजेंसी के द्वारा ही निर्धारित एवं आपूर्ति की जायेगी।

(9) दोनों प्रकार की एजेंसियों को निविदा के साथ संबंधित कागजात अभिप्रमाणित कर एवं पृष्ठांकित कर संलग्न करना होगा।

(10) एक्स आर्मी मैन को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्र संबंधि कागजात अथवा डिस्चार्ज बुक की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(11) बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सुरक्षित रहेगा।

(12) एक्स आर्मी मैन का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एजेंसी को 10,000=00 (दस हजार) रुपये मात्र प्रतिदिन तक आर्थिक दंड दिया जा सकता है। बार-बार कार्य असंतोषजनक होने पर एजेंसी की सेवा समाप्त की जा सकती है।

(13) निविदा स्वीकृति होने पर निविदादाता को सभी शर्त पालन करने का एकरानामा एक सौ रुपये (100=00) के नन-जयुडिसियल स्टांप पर देना होगा।

(14) कार्यालय द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा तीनों पार्ली के कार्यरत सुरक्षा कमियों का उपस्थिति पंजी अवलोकन करने एवं रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

(15) किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

(16) सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान नियमानुकूल की जायेगी। भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का सूद (ब्याज) देय नहीं होगा।

(17) वित्तीय निविदा में प्रति सुरक्षा कर्मी एवं सुपरवाईजर के लिए दर अंकित करना होगा। इसी दर के अंदर ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 एवं श्रम नियमावली के अंतर्गत देय सभी सुविधा में होगी।

(18) स्वीकृत दर वाले निविदादाता को एक्स आर्मी मैन मुहैया करना होगा। एक्स आर्मी मैन उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी निविदा रद्द कर द्वितीय दर वाले निविदादाता को कार्य आदेश दे दिया जायेगा।

अधीक्षक,

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>